



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 1983/माघ 22, 1904

No. 46]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 1983/MAGHA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1983

सं० 11/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 64 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 4 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 190/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 2 नवम्बर, 1968 को अधिश्रान्त करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी मुक्त व्यापार जोन में सीमाशुल्क अधिकारियों को, संबंधित मुक्त व्यापार जोन की अधिकारिता के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करना है और उनमें उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रैंक के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियां विनिहित करना है। ये शक्तियां किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी

को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियां हैं।

सारणी

क्रम सं०	मुक्त व्यापार जोन में सीमा- शुल्क अधिकारी	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों का रैंक
(1)	(2)	(3)
1.	सहायक कलेक्टर	सहायक कलेक्टर
2.	अंकक	अधीक्षक
3.	परीक्षक	निरीक्षक
4.	निरीक्षक अधिकारी	निरीक्षक

[फा० सं० 200/21/82-के० उ० शु० 6]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th February, 1983

No. 11/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 64(E) —In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of

1944), read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 190/68-Central Excises, dated the 2nd November, 1968, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the officers of customs in a free trade zone specified in column (2) of the Table below as Central Excise Officers within the jurisdiction of the free trade zone concerned and invests them with all the powers exercisable by an officer of Central Excise of the rank specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, such powers being the powers of a Central Excise Officer conferred under the said Act and the rules framed thereunder.

TABLE

S. No. Officers of Customs in free trade zone.		Rank of the Officers of Central Excise.
(1)	(2)	(3)
1. Assistant Collector		Assistant Collector
2. Appraiser.		Superintendent.
3. Examiner.		Inspector.
4. Preventive Officer		Inspector.

[F. No. 202/21/82-CX-6]

सं० 12/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 65 (अ) :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 4 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 10/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जनवरी, 1967 को अधिकांश करने हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी मुक्त व्यापार जोन प्रशासन के अधिकारियों को, संबंधित मुक्त व्यापार जोन की अधिकारिता के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करना है और उनमें उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रैंक के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां विनिर्दिष्ट करता है। ये शक्तियां किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियां हैं।

सारणी

क्रम सं० मुक्त व्यापार जोन प्रशासन के अधिकारी		केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों का रैंक
(1)	(2)	(3)
1. प्रशासनिक अधिकारी		अधीक्षक
2. सुरक्षा अधिकारी		अधीक्षक

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 12/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 10/67-Central Excises, dated the 21st January, 1967, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the officers of a free trade zone administration specified in column (2) of the Table below as Central Excise Officers within the jurisdiction of the free trade zone concerned and invests them with all the powers exercisable by an officer of Central Excise of the rank specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, such powers being the powers of a Central Excise Officer conferred under the said Act and the rules framed thereunder.

TABLE

Sl No. Officers of free trade zone Administration.		Rank of the Officers of Central Excise.
(1)	(2)	(3)
1. Administrative Officer		Superintendent.
2. Security Officer.		Superintendent.

[F. No. 202/21/82-EX. 6]

सं० 13/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 66 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (—संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में :—

(1) खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5क) “मुक्त व्यापार जोन” से अभिप्रेत है कांडला मुक्त व्यापार जोन और सांता क्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात संसाधन जोन इसके अंतर्गत कोई अन्य ऐसा मुक्त व्यापार जोन भी है जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(2) खंड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(7क) “कांडला मुक्त व्यापार जोन” से अभिप्रेत है कांडला मुक्त व्यापार जोन जिसमें

गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अंजर तालुका के वे स्थान समाविष्ट हैं जिनके सर्वेक्षण संख्याक 199; 200, 201, 207, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 257, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 304, 310, 312, 313, और 315 हैं और जो कांडला पत्तन से 9.6 किलोमीटर की दूरी पर हैं तथा जो 3.3528 मीटर ऊंची बाढ़ से घिरे हुए हैं। इस बाढ़ में पत्थर की चिताई होगी तथा ऊपर मृदु इस्पात छड़ों की जाली होगी और यह बाढ़ उत्तर में 1,042.49 मीटर पश्चिम में 1,529.51 मीटर, दक्षिण में 777.85 मीटर तथा पूर्व में 1,847.88 मीटर तक होगी ;

- (3) खंड (14क) के खंड (14ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड में पूर्व निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(14क) “सांता क्रुज इलेक्ट्रॉनिकस संसाधन जोन” में अधिप्रेत है सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिकस निर्मात संसाधन जोन, मुम्बई, जिसमें अधिप्रेत तालुका में प्रजापुर और व्यारावलि की ग्राम-सीमाओं के भीतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के भारेल औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट सं० एफ०-1 वाले स्थान समाविष्ट हैं और जो अब मुम्बई तथा मुम्बई उपनगर रजिस्ट्रीकरण जिले और उपजिले में हैं जिनका माप 3,75,013 वर्ग मीटर था उसके लगभग है और निम्नलिखित रूप में सीमा बद्ध है उत्तर में या उत्तर की ओर, सड़क तथा आरे दुग्ध-कालोनी भूमि, दक्षिण में या दक्षिण की ओर सड़क पूर्व में या पूर्व की ओर, पांडुर लाइन और आरे दुग्ध कालोनी भूमि, और पश्चिम में या पश्चिम की ओर, सड़क ;

3. उक्त नियमों के नियम 56क के उपनियम (2) में, दूसरे परन्तुक के नीचे स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

परन्तु यह कि किसी मुक्त व्यापार जोन में निर्मित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान में परिवर्तित

उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी सामग्री या संघटक भागों की बाबत, यदि वह सामग्री या संघटक भाग अधिनियम की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आते हैं तो कोई शुल्क का मुजरा नहीं दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी मुक्त व्यापार जोन में निर्मित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान में परिवर्तित उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी सामग्री या संघटक भागों की बाबत, कोई शुल्क का मुजरा, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन वैसे ही माल पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के बराबर शुल्क तक निर्बंधित होगा और उस सामग्री या संघटक भागों पर, यदि वह सामग्री या संघटक भाग अधिनियम की पहली अनुसूची की मद सं० 68 में भिन्न किसी मद के अन्तर्गत आते हैं दिया जाएगा ।”

4. उक्त नियमों में नियम 96 य फ के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि इस नियम के उपबन्ध, मुक्त व्यापार जोन में विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान में किसी सीमेंट कारखाने को वापस किए गए सीमेंट को लागू नहीं होंगे।”

5. उक्त नियमों के नियम 97 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) इस नियम के उपबन्ध मुक्त व्यापार जोन में विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान में किसी कारखाने को वापस किए गए उत्पाद-शुल्क माल को लागू नहीं होंगे।”

6. उक्त नियमों के नियम 97क के, उपनियम (4) के के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) इस नियम के उपबन्ध मुक्त व्यापार जोन में विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान में किसी कारखाने को वापस किए गए उत्पाद-शुल्क माल का लागू नहीं होगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 100 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस नियम के उपबन्ध, मुक्त व्यापार जोन में विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान में किसी कारखाने द्वारा प्राप्त चीनी को लागू नहीं होंगे।”

8. उक्त नियमों के अध्याय 5 के पश्चात् निर्दिष्ट अध्याय और नियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“अध्याय 5-क

मुक्त व्यापार जोन से देशी उपभोग के लिए उत्पाद शुल्क्य माल का हटाया जाना

10क. लागू होना—(1) इस अध्याय के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, मुक्त व्यापार जोन के भीतर उत्पाद शुल्क्य के माल का निर्माण या विनिर्माण करने लिए अनुज्ञात किसी व्यक्ति को, जो उस पर उद्-ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करके उस उत्पाद शुल्क्य माल को भारत में किसी अन्य स्थान में ले जाने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया गया है लागू होंगे।

(2) जहां ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल के सम्बन्ध में इस अध्याय और किसी अन्य अध्याय में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों में विरोध है वहां इस अध्याय के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

100ख. दैनिक स्टॉक लेखा—जहां किसी विनिर्माता से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उप-बन्धों या तदधीन बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के अधीन यथास्थिति, कच्ची सामग्री या संघटक भागों या परिष्कृत उत्पाद शुल्क्य माल का लेखा रखे जाने की अपेक्षा की जाती है वहां इन नियमों में अन्यत्र किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे लेखाओं को, इन नियमों के प्रयोजनार्थ रखे गए लेखा समझा जाएंगे।

परन्तु कलक्टर, किसी विनिर्माता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे उक्त लेखाओं में अतिरिक्त जानकारी दे या ऐसे अतिरिक्त लेखा रखे, जो वह आवश्यक समझे।

100ड. चालू खाता बनाए रखना (1)—कलक्टर, विनिर्माता द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से, मुक्त व्यापार जोन से हटाए गए उत्पाद शुल्क्य माल के प्रत्येक पृथक परेषण की बाबत शुल्क के संदाय की अपेक्षा करने के बदले, ऐसे माल के विनिर्माता के पास उस पर संदेय शुल्क का चालू-खाता रख सकेगा और ऐसे खाते का परि-निर्धारण एक मास में अनधिक के अन्तराल पर किया जाएगा और खाता धारक उसमें कालिक संदाय करेगा जो कलक्टर की राय में मुक्त व्यापार जोन से हटाए जाने के लिए आशयित उत्पाद शुल्क्य माल पर शोध्य की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हों।

परन्तु यह कि कलक्टर, ऐसे विनिर्माता को जो अधि-नियम की पहली अनुसूची की दंड या अधिक मर्दों के अधीन आने वाले उत्पाद शुल्क्य माल का विनिर्माण करता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहने हुए जो कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ऐसे सभी माल पर शोध्य शुल्क के संदाय के लिए एकल चालू-खाता बनाए रखने की अनुज्ञा दे सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई विनिर्माता प्रत्येक उत्पाद-शुल्क्य माल के लिए पृथक चालू-खाता बनाए रखता है, तो वह किसी चालू-खाता में अपर्याप्त अतिशेष होने की दशा में, ऐसी शर्तों के अधीन रहने हुए जो कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे चालू-खाता में, जिसमें अन्तरण की तारीख को पर्याप्त अतिशेष है, उस खाने में कोई राशि अन्तरित कर सकेगा।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन चालू खाता रखने वाला कोई विनिर्माता, ऐसे चालू-खाता में कोई राशि वापस लेने के लिए कलक्टर में आवेदन करता है तो कलक्टर अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से विनिर्माता को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, वह राशि वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा।

100घ. शुल्क के संदाय पर माल का हटाया जाना—

(1) जब कोई विनिर्माता शुल्क का संदाय करने के पश्चात् किसी मुक्त व्यापार जोन से भारत में किसी अन्य स्थान में उत्पाद शुल्क्य माल हटाना चाहता है तो वह समुचित अधिकारी को समुचित प्ररूप में चार प्रतियों में (जब तक कि नियम या आदेश में अन्यथा अपेक्षित न हो) आवेदन करेगा और माल को हटाने के लिए आशयित समय से कम से कम चारह घंटे (या ऐसी अन्य अवधि जो कलक्टर किसी विशेष मामले में विनिर्दिष्ट करे) पूर्व समुचित अधिकारी को परिदत्त करेगा।

(2) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ माल के इस प्रकार हटाए जाने की अनुज्ञा देने वाला आदेश और ऐसे अन्य दस्तावेज होंगे जो समुचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उत्पाद शुल्क्य माल को हटाए जाने के लिए सम्यक् अनुज्ञा दी गई है तो वह माल पर शोध्य का निर्धारण करेगा और इस प्रकार निर्धारित शुल्क के संदाय पर माल को हटाए जाने की अनुज्ञा देगा।

परन्तु यह कि जहां निर्धारण माल के मूल्य पर निर्भर करता है वहां समुचित अधिकारी, विनिर्माता से ऐसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसी अन्य जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उसके मूल्य को अवधारित करने के लिए आवश्यक समझे।

100ड. गेटपास का जारी करना—(1):—कोई भी उत्पाद शुल्क्य माल, किसी मुक्त व्यापार जोन से भारत में किसी अन्य स्थान के लिए, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के संदाय के पश्चात् और समुचित प्ररूप में या ऐसे अन्य प्ररूप में, कलक्टर विनिर्दिष्ट करे, गेटपास के अधीन हो जो विनिर्माता या उसके प्राधिकृत अभिवर्तों द्वारा हस्ता-क्षरित तथा समुचित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हुआ हटाया जाएगा अन्यथा नहीं।।

(2) (क) गेट पास तीन प्रतियों में, अर्माइट पेसिन्ग में, दोहरा कार्बन का उपयोग करके तैयार किया जाएगा और उसमें कोई विकृति, लिप्लेखन, शुद्धि या उद्धरण नहीं होगा।

(ख) गेट पास मुक्त व्यापार ज्ञान में कारखाने में माल के हटाए जाने के कम से कम एक घंटा पूर्व समुचित अधिकांश के समक्ष प्रतिहस्ताक्षरित के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् समुचित अधिकारी विनिर्माता का गेट पास की मूल प्रति और तीसरी प्रति लौटा देगा और दूसरी प्रति अपने अभिलेख के लिए रख लेगा।

(घ) उक्त मूल प्रति परपण के साथ उसके गन्तव्य स्थान तक रहेगी और तीसरी प्रति विनिर्माता द्वारा रख ली जाएगी।

(ङ) उक्त मूल प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा माग की जान पर बाहक द्वारा तब प्रस्तुत की जाएगी जब माल मुक्त व्यापार ज्ञान में अपने गन्तव्य स्थान के लिए जा रहा हो।

3(क) यदि एक परपण में समर्पित सभी पैकेज एक लाट में एक ही समय में प्रेषित किए जाने हैं तो परपण के सबंध में केवल एक गेट पास तैयार किया जाएगा।

(ख) जहां कोई परपण दो या अधिक लाटों में विभक्त किया जाता है जिसमें से प्रत्येक उम्मी दिन या विभिन्न दिनों को पृथक-पृथक प्रेषित किया जाता है वहां प्रत्येक ऐसे लाट के लिए पृथक-पृथक गेट पास तैयार किया जाएगा।

(ग) यदि कोई परपण, एक से अधिक यान, जलयान, भारवाहक पशु या प्रवहन के अन्य साधनों पर लादा जाता है जो साथ साथ यात्रा नहीं करते हैं किन्तु अलग अलग या अन्तराल पर यात्रा करते हैं तो प्रत्येक यान, जलयान, भारवाहक पशु या प्रवहन के अन्य साधन की बाबत अलग-अलग गेट पास तैयार किया जाएगा।

100व मासिक विवरणी -- विनिर्माता, उस मास की समाप्ति के मान दिन के भीतर जिसमें विवरणी संचित है या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो कलक्टर अनुज्ञात करे, मुक्त व्यापार ज्ञान में भारत में अन्य स्थान को शुल्क का मसदा करके हटाए गए उत्पाद शुल्क माल की बाबत समुचित प्रत्येक में चार प्रतियों में विवरणी समुचित अधिकारी के पास फाइल करेगा।

100% माल के हटाए जाने पर निबंधन -- (1) माल, मुक्त व्यापार ज्ञान के किसी कारखाने में मुक्त व्यापार ज्ञान के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान में पूर्वाह्न में छह बजे में पहले और अपराह्न में छह बजे के बाद और रविवार, मार्गजतिक अवकाश दिन का किसी भी समय, कलक्टर की अनुज्ञा में और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के मसदा पर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क

बाई या कलक्टर साधारण या विशेष आदेश जारी अपेक्षा करे, परिदत्त किया जा सकेगा अन्वया नहीं।

(2) कोई भी उत्पाद शुल्क माल, मुक्त व्यापार ज्ञान में किसी कारखाने में मुक्त व्यापार ज्ञान के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान में केन्द्रीय सरकार के वार्षिक या अनुपूर्व बजट के समक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाने या लोक सभा में वित्त विधेयक या कोई शुल्क अधिरोपित करने या बढ़ाने के लिए किसी विहित वित्त विधेयक किसी शुल्क के अधिरोपण या वृद्धि के लिए किसी विधेयक के पुर स्थापित किए जाने या के लिए नियत तारीख को तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि इस प्रकार हटाए जाने के लिए विनिर्माता द्वारा समुचित प्रत्येक में आवेदन समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और उस आवेदन को समुचित अधिकारी द्वारा, पूर्वोक्त तारीख में ठीक पूर्व कार्य दिवस को पांच बजे अपराह्न में पूर्व अभिस्वीकृत नहीं कर लिया गया है।

परन्तु यह कि ऐसे माल के जो आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उस समय अस्तित्व में आता है हटाए जाने के लिए किसी आवेदन की अभिस्वीकृति इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि कलक्टर द्वारा इस निमित्त अधिरोपित निबंधनों, शर्तों और परिसमाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है।

परन्तु यह और कि यदि कोई विनिर्माता, मुक्त व्यापार ज्ञान में किसी कारखाने से मुक्त व्यापार ज्ञान में बाहर भारत में किसी स्थान में पूर्वोक्त तारीख को पांच बजे अपराह्न के पश्चात् हटाना चाहता है तो वह इस प्रकार हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार से भी उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण उपनियम (2) और उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ "माल" के अन्तर्गत वह माल भी है जो इन उपनियमों में निर्दिष्ट आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् किसी समय अस्तित्व में आए।

(3) जहां कोई विनिर्माता, मुक्त व्यापार ज्ञान के कारखाने से मुक्त व्यापार ज्ञान के बाहर भारत में किसी अन्य स्थान में, केन्द्रीय सरकार के वार्षिक या अनुपूर्व बजट समक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाने या लोक सभा में वित्त विधेयक या किसी शुल्क के अधिरोपण या वृद्धि करने के लिए किसी विधेयक को पुर स्थापित किए जाने के लिए नियत तारीख को पांच बजे अपराह्न के पश्चात् माल हटाना चाहता है वह केन्द्रीय सरकार को इस निमित्त लिखित आवेदन कर सकेगा जिसमें वह पूर्वोक्त तारीख के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख में बढ़ाई गई दर पर शुल्क का जो ऐसे माल का लागू हो, मसदा करने और ऐसी शर्तों का जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, अनुपालन करने या वचनबद्ध होगा और तब केन्द्र सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है तो ऐसे माल का हटाने की अनुज्ञा दे सकेगी।

100३ कतिपय उपबंधों में छूट :—नियम 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 52क, 53क, 54 55, 56क, 56कक, 56ब, 56ग, अध्याय 7, अध्याय 8, नियम 223क, 223ख, 224, 228 और 229 के उपबन्ध उस विनिर्माता को लागू नहीं होंगे जिसे वह अध्याय लागू होता है।”

9. उक्त नियमों के नियम 173क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) इस अध्याय की कोई भी बात ऐसे विनिर्माता या उत्पादक का लागू नहीं होगी जिसे अध्याय 5 के खंड ग-1, ड-3 या इ-9 के अनुसार अपने शुल्क के दायित्व का निर्वहन करने के लिए अनुज्ञाति दिया गया है या जिसे अध्याय 5-क के उपबंध लागू होते हैं।”

10. उक्त नियमों के नियम 173 ठ के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) इस नियम के उपबन्ध, मुक्त व्यापार जोन में विनिर्मित उत्पाद शुल्क्य माल को और भारत में किसी अन्य स्थान में कारखाने को लौटाए गए माल को लागू नहीं होंगे।”

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली सं० 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली सं०	प्ररूप का वर्णन	नियम सं०	संक्षिप्त नाम
“57क	शुल्क के सदाय पर मुक्त व्यापार जोन में हटाए गए उत्पाद-शुल्क्य माल के बारे में	100 घ	ए०आर० 1-ग,”

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आबली सं० 65 कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आबली सं०	प्ररूप का वर्णन	नियम सं०	संक्षिप्त नाम
“65ककक	शुल्क के सदाय पर मुक्त व्यापार जोन से हटाए जाने वाले उत्पाद-शुल्क्य माल के लिए गेट पास	100ड	जी पी० 1-ग,”

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली सं० 79 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली सं० और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सं०	प्ररूप का वर्णन	नियम सं०	संक्षिप्त नाम
“79ग	शुल्क के सदाय पर मुक्त व्यापार जोन में हटाए जाने वाले उत्पाद शुल्क्य माल की मासिक विवरणी	100च	आर टी-13”

11. उक्त नियमों के नियम 173 ड के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4) इस नियम के उपबन्ध, मुक्त व्यापार जोन में विनिर्मित उत्पाद शुल्क्य माल और भारत में किसी अन्य स्थान में कारखाने को लौटाए गए माल को लागू नहीं होंगे।”

12. उक्त नियमों के नियम 174 क में,

(i) खंड (क) में “और” शब्द का लोप किया जाएगा,

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित कोई माल या माल का वर्ग।”

13. उक्त नियमों के नियम 233 ख के उपनियम (4) में “प्ररूप आर० टी० 12” शब्दों और अंकों के स्थान पर “यथास्थिति, प्ररूप आर० टी० 12 या प्ररूप आर० टी० 13” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

14. उक्त नियमों के परिशिष्ट I में :—

(क) (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्ररूपों की सूची में,

(ख) नमूना प्रारूप (ग) में,—

- (i) प्रारूप ए० या ए० 1 में पेशवात् (गुल्ल 1 मध्य पर उत्पाद शुल्क माल को प्रदान करने के लिए मान्यता) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली स० 57) निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आबली स० और प्रारूप अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आबली स० 57क

ग व पत्र/दूसरी प्रति/तीसरी प्रति/चौथी प्रति

प्रारूप ए और 1ए

शुल्क के मदाय पर मुक्त व्यापार जोन से हटाए जाने वाले उत्पाद _____ रेजि—
 शुल्क माल के लिए आवेदन _____ डिजिटल—
 स्वामी/विनिर्माता का नाम और पता _____ क्लेकटरी—
 विक्रेता का नाम और पता _____ मुक्त व्यापार जोन—

रजिस्टर में प्रविष्टि की तारीख और सख्याक	पैकेजों की सख्या और वर्णन	पैकेजों का सकल भार	चिन्ह और सख्या	भार या परिमाण	टैरिफ वर्गीकरण सहित माल का वर्णन
1	2	3	4	5	6

उत्पाद शुल्क

बीजक मूल्य	स्तंभ 9 के लिए निर्धारणीय मूल्य		मूल सीमा शुल्क के बराबर		सहायक शुल्क के बराबर		किसी अन्य सीमा शुल्क के बराबर	
	प्रति यूनिट	कुल	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम
7	8 (क)	8 (ख)	9 (क)	9 (ख)	9 (ग)	9 (घ)	9 (ङ)	9 (च)

अतिरिक्त (सीमा) शुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क

स्तम्भ 11 के लिए निर्धारणीय मूल्य		मूल्य उत्पाद शुल्क		विशेष उत्पाद शुल्क		अतिरिक्त उत्पाद शुल्क		उपकर		कोई अन्य उत्पाद शुल्क	
प्रति यूनिट	कुल	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम
10(क)	10(ख)	11(क)	11(ख)	11(ग)	11(घ)	11(ङ)	11(च)	11(छ)	11(ज)	11(झ)	11(ञ)

स्मंभ 9 और 11 का योग	जारी किए गेट पास का क्रम सं०		टिप्पणियां	
12	13		14	
शुल्क की कुल रकम (शब्दों में)	रूपये	चालू खाने के माध्यम से सदाय करने के लिए	चालू खाना संख्याक	संख्यांक और रकम प्रविष्टि

(पिनपाइंट टाइपराइटर द्वारा)

योग-----

प्राधिकरण अनुज्ञापन सं० और तारीख

घोषणा

मैं/हम घोषणा करना हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सत्य हैं और सही रूप से कथित हैं।

मैं/हम उपर्युक्त माल के विकास के लिए इजाजत के लिए आवेदन करना हूँ/करते हैं।

स्वामी/विनिर्माता के हस्ताक्षर

स्थान-----

तारीख-----

निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर

सहायक कलक्टर के प्रतिहस्ताक्षर

अनुज्ञान किया गया-----

समय-----

जी 1-ए सं०-----

तारीख-----

स्थान-----

तारीख-----

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी”:

- (ii) प्ररूप जी पी 2 (शुल्क का सदाय किए बिना किसी कारखाने या भंडागार से उत्पाद शुल्कय माल को हटाने के लिए गेट पास (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवली सं० 65 कक), के पश्चात् निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवली सं० और प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवली सं० 65कक

बाहक के लिए मूलप्रति

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए दूसरी प्रति

तीसरी कार्यालय प्रति

क्रम संख्यांक-----

रेंज-----

डिविजन-----

कलकटरी-----

मुक्त व्यापार जोन-----

प्ररूप जी० पी० 1—क

विनिर्माता का नाम और पता—

उत्पाद शुल्क माल का वर्णन—

टैरिफ मद्र और उप-मद्र सं०—

क्रम सं०	माल का किस्म सं०	पैकेजों का वर्णन	माल का पहचान चिन्ह और क्रम सं०	प्रति पैकेज औसत अंत वस्तु	कुल परिणाम	कुल संदर्भ शुल्क
1	2	3	4	5	6	7

योग

ए० आर० 1— क्र० सं० और तारीख :

चालू-लेखा सं० और चालू-लेखा में शुल्क के लिए विकलन प्रविष्टि तारीख ।

परिपत्ती का नाम और पता

परिवहन की रीति—

यदि मोटर/यान द्वारा, तो उसका रजिस्ट्रीकरण सं०—

यदि रेल द्वारा, तो उसके बुकिंग स्टेशन का नाम—

यदि रेल द्वारा, तो प्राप्त करने वाले स्टेशन का नाम—

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्टियां सही हैं ।

स्थान

गेट पास तैयार करने की तारीख और समय—

विनिर्माता के हस्ताक्षर

परिपत्ती को पड़ताल की गई

और ठीक पाया गया

तारीख :

समय .

किमी मुक्त व्यापार जोन पर केन्द्रीय उत्पाद
शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर

(III) प्ररूप आर० टी० 12 (विनिर्मित/ वंशपन्नाधीन प्राप्त किए गए और अध्याय VII—क के अधीन कार्य कर रहे निर्धारितियों द्वारा जारी किए गए उत्पाद शुल्क माल को भासिक/काजिक विवरणी) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवली सं० 79-ख) के पश्चात् निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवली सं० और प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवली सं० 79ग

मूल प्रति/दूसरी प्रति/तीसरी प्रति

रेज—

प्रविजन—

कलकटरी—
मुक्त व्यापार जोन—
क्रम सं०—
मास—
वर्ष—

प्ररूप आर टी 13

विनिर्माता का नाम और पता—

क्रम सं०	माल का वर्णन टैरिफ वर्गीकरण	शुल्क के संदाय पर हटाए जाने वाला अनुज्ञेय परिमाण	अनुज्ञा सं० और तारीख	हटाई जाने वाली परिमाण	गुल्क की रकम	गेट पास की विशिष्टियां
1	2	3	4	5	6ख	7

हटाने से रह गया शेष			टिप्पणियां	
8			9	
मास	आरंभिक अनिरोध	मास के दौरान जमा किया गया नया माल	योग	मास के दौरान विकलित राशि
अंतिम अतिशेष				

विशिष्टियां ठीक पाई गई
निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

विनिर्माता के हस्ताक्षर

टिप्पण

[पत्र संख्या 202/21/8 2-के०उ०शु०-6]

NO. 13/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 66(E)—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (3rd Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(va) “free trade zone” means the Kandla Free Trade Zone and the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone and includes any other free trade zone which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf;’;

(ii) after clause (vii), the following clause shall be inserted namely:—

(viii) “Kandla Free Trade Zone” means the Kandla Free Trade Zone comprising the places bearing the survey numbers 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 216, 127, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 257, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 304, 310, 312, 313, and 315 in the Taluka of Anjar District of Kutch, State, of Gujarat, at a distance of 9.6 kilometres from the port of Kandla, and enclosed by a 3.3528 metres high fencing, consisting of stone masonry in mild steel bar mesh at the top, extending 1,04,4.29 metres in the North, 1,529.51 metres in the West 777.86 metres in the South and 1,847.88 metres in the East;

(iii) clause (xiva) shall be renumbered as clause (xivb), and before the clause as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—‘(xiva) “Santa Cruz

Electronics Export Processing Zone" means the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone, Bombay, comprising the places bearing plot No. F. 1. in the Marel Industrial area of Maharashtra Industrial Development Corporation within the village limits of Parjapur and Vyaravli, Taluka Andheri, and now in the Registration sub-district and District of Bombay and Bombay Suburban, containing by admeasurement 3,75,013 Square Metres or thereabout and bounded—

on or towards the North, by Road and Aarey Milk Colony Land,
on or towards the South, by Road,
on or towards the East, by pipe line and Aarey Milk Colony Land, and
on or towards the West, by Road ;

3. In rule 56A of the said Rules, in sub-rule (2), after the Explanation below the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided also that no credit of duty shall be allowed in respect of any material or component parts produced or manufactured in a free trade zone and used in the manufacture of finished excisable goods in any other place in India, if such material or component parts fall under Item N. 68 of the First Schedule to the Act :

Provided also that credit of duty shall be restricted in respect of any material or component parts produced or manufactured in a free trade zone and used in the manufacture of finished excisable goods in any other place in India, to the extent of duty which is equal to the additional duty leviable on like goods under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and is paid on such material or component parts, if such material or component parts fall under any Item other than Item No. 68 of the First Schedule to the Act".

4. In rule 96ZV of the said rules, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the provisions of this rule shall not apply to cement manufactured in a free trade zone and returned to a cement factory in any other place in India".

5. In rule 97 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) The provisions of this rule shall not apply to excisable goods manufactured in a free trade zone and returned to a factory in any other place in India".

6. In rule 97A of the said rules, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, name :—

"(5) The provisions of this rule shall not apply to excisable goods manufactured in a free trade zone and returned to a factory in any other place in India".

7. In rule 100 of the said rules the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the provisions of this rule shall not apply to sugar manufactured in a free trade zone and received by a factory in any other place in India".

8. After Chapter V of the said rules, the following Chapter and rules shall be inserted, namely:—

CHAPTER V-A

Removal from a free trade zone of excisable goods for home consumption.

100A. Application.—(1) The provisions of this Chapter shall apply to a person permitted under any law for the time being

in force to produce or manufacture excisable goods within a free trade zone, and who has been permitted by the proper officer to remove such excisable goods to any other place in India on payment of duty of excise leviable thereon.

(2) Where there is a conflict between the provisions of this Chapter and the provisions contained in any other Chapter in relation to such excisable goods, the provisions of this Chapter shall prevail.

100B. Daily Stock Account.—Where a manufacturer is required to maintain accounts of raw material or component parts or finished excisable goods, as the case may be, under the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or rules, regulations, orders or notifications made or issued thereunder then, not withstanding anything contained elsewhere in these rules, such accounts shall be deemed to be the accounts maintained for the purposes of these rules:

Provided that the Collector may require a manufacturer to provide such additional information in the said accounts or maintain such additional accounts as he may deem necessary.,

100C. Maintenance of account-current.

(1) The Collector may, either on a written request made by a manufacturer or on his own accord, instead of requiring payment of duty in respect of each separate consignment of excisable goods removed from a free trade zone, keep with the manufacturer of such goods an account-current of the duties payable thereon and such account shall be settled at intervals not exceeding one month, and the account holder shall periodically make deposits therein sufficient in the opinion of the Collector to cover the duty due on the excisable goods intended to be removed from the free trade zone:

Provided that the Collector may allow a manufacturer who manufactures excisable goods falling under two or more Items of the First Schedule to the Act, to maintain, subject to such conditions as the Collector may specify in this behalf, a single account-current for payment of duty due on all such goods:

Provided further that where a manufacturer maintains separate account-current for each excisable goods, he may, in the event of an insufficient balance in any of the account-current, transfer, subject to such conditions as the Collector may specify in this behalf, an amount to such account-current from another account-current which has enough balance on the date of such transfer.

(2) Where a manufacturer keeping an account-current under sub-rule (1) makes an application to the Collector for withdrawing an amount from such account-current, the Collector may, for reasons to be recorded in writing, permit such manufacturer to withdraw the amount in accordance with such procedure as the Collector may specify in this behalf.

100.D Removal of goods on payment of duty.—(1) When a manufacturer desires to remove excisable goods from a free trade zone to any other place in India on payment of duty, he shall make an application in triplicate (unless otherwise by order required) to the proper officer in the proper form and shall deliver it to the proper officer at least twelve hours (or such other period as the Collector may in a particular case require or allow), before it is intended to remove the goods.

(2) Each such application shall be accompanied by the order permitting such removal and by such other documents as may be required by the proper officer, and the proper officer shall, thereupon, if satisfied that the excisable goods have been duly permitted to be so removed, assess the amount of duty du

on the goods and on payment of the duty so assessed, allow the goods to be removed:

Provided that where the assessment is dependent on the value of the goods, the proper officer may require the manufacturer to produce such other documents or furnish such other information, as he may consider necessary, in order to determine the value thereof :

100E. Issue of a gate-pass.—(1) No excisable goods shall be removed from a free trade zone to any other place in India except on payment of the duty of excise leviable on such goods and under a gate-pass in the proper form or in such other form as the Collector may specify, signed by the manufacturer or his authorised agent and countersigned by the proper officer.

(2)(a) The gate-pass shall be made out in triplicate with indelible pencil, using double-sided carbon and shall contain no mutilation, overwritings, corrections or erasures.

(b) The gate-pass shall be presented to the proper officer for countersignature at least one hour before the actual removal of the goods from the factory in the free trade zone.

(c) After countersignature, the proper officer shall return the original and triplicate copies of the gate-pass to the manufacturer retaining the duplicate copy for his record.

(d) The said original copy shall accompany the consignment to its destination and triplicate copy shall be retained by the manufacturer.

(e) The said original copy shall be produced by the carrier on demand by any Central Excise Officer, while the goods are enroute to its destination from the free trade zone.

(3)(a) If all the packages comprising a consignment are despatched in one lot at any one time, only one gate-pass shall be made out in respect of the consignment.

(b) Where a consignment is split into two or more lots, each of which is despatched separately either on the same day or on different days, a separate gate-pass shall be made out in respect of each such lot.

(c) In case a consignment is loaded on more than one vehicle, vessel, pack animal or other means or conveyance, which do not travel together but separately or at intervals, a separate gate-pass shall be made out in respect of each vehicle, vessel, pack animal or other means of conveyance.

100F. Monthly Return.—Within seven days after the close of the month to which the return relates or within such extended period as the Collector may allow, a manufacturer shall file with the proper officer in quadruplicate a monthly return in the proper form, in respect of the excisable goods removed from a free trade zone to any other place in India on payment of duty.

100G. Restrictions on removal of goods:—(1) Goods may not be delivered from a factory in a free trade zone to any place in India outside the free trade zone before 6 O' Clock in the forenoon or after 6 O' clock in the afternoon, nor at any hour on Sundays and public holidays, except by permission of the Collector, and under such conditions, and on payment of such fees, as the Central Board of Excise and Customs or the Collector may by general or special order require.

(2) No excisable goods shall be removed from a factory in a free trade zone to any place in India outside the free trade zone on the date appointed for the presentation of the annual or any Supplementary Budget of the Central Government to Parliament or for the introduction in the House of the People

of any Finance Bill or any Bill for the imposition or increase of any duty unless an application for such removal in the prescribed form has been presented by the manufacturer to the proper officer and such application has been acknowledged by the proper officer, before 5.00 P.M. on the working day immediately preceding the date aforesaid :

Provided that no such application for the removal of goods which may come into existence at any time after the presentation of the application shall be acknowledged under this sub-rule unless the terms, conditions and limitations imposed by the Collector in this behalf are complied with :

Provided further that where a manufacturer intends to remove goods from a factory in a free trade zone to any place in India outside the free trade zone after 5.00 P.M. on the date aforesaid, he shall also obtain the permission of the Central Government under sub-rule (3) for such removal.

Explanation:—For the purposes of sub-rule (2) and sub-(3), "goods" include goods which may come into existence at any time after the presentation of an application referred to in these sub-rules.

(3) Where a manufacturer intends to remove goods from a factory in a free trade zone to any place in India outside the free trade zone after 5.00 P.M. on the date appointed for the presentation of the annual or any Supplementary Budget of the Central Government to Parliament or for the introduction in the House of the people of any Finance Bill or any Bill for the imposition or increase of any duty, he may make an application in this behalf in writing to the Central Government undertaking to pay duty at the enhanced rate, if any, that may be applicable to such goods with effect from the date immediately following the date aforesaid and to comply with such condition, as the Central Government may specify and thereupon the Central Government may, if it considers it necessary or expedient in the public interest so to do, permit the removal of such goods.

100.H Exemption from certain provisions.—The provisions contained in rules 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 52A, 53, 53A, 54, 55, 56A, 56AA, 56B, 56C, Chapter VII, Chapter VIII, rules 223A, 223B, 224, 228 and 229 shall not apply to a manufacturer to whom this Chapter applies."

9. In rule 173A of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Nothing in this Chapter shall apply to a manufacturer or producer who has been allowed to discharge his duty liability in accordance with the provisions contained in Section C-I, E-III or E-IX of Chapter V or to whom the provisions of Chapter V-A apply."

10. In rule 173L of the said rules, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5) The provisions of this rule shall not apply to excisable goods manufactured in a free trade zone and returned to a factory in any other place in India."

11. In rule 173M of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) The provisions of this rule shall not apply to excisable goods manufactured in a free trade zone and returned to a factory in any other place in India."

12. In rule 174A of the said rules,—

(i) in clause (a), the word "and" shall be omitted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(c) any goods or class of goods which are produced or manufactured in a free trade zone”.

13. In rule 233B, in sub-rule (4), after the word, letters and figures “Form R.T. 12”, the words, letter and figures “or Form R.T. 13, as the case may be” shall be inserted.

14. In Appendix I to the said rules,—

(a) in (I) List of Central Excise Forms,—

(i) after Central Excise Series No. 57 and the entries relating thereto, the following Central Excise Series No. and entries shall be inserted, namely:—

Central Excise Series No.	Description of Form	Rule No.	Short title
“57A	of excisable goods removed from a free trade zone on payment of duty.	100D	A.R. 1-A”;

(ii) After Central Excise Series No. 65AA and the entries relating thereto, the following Central Excise Series No. and entries shall be inserted, namely:—

Central Excise Series No.	Description of Form	Rule No.	Short title
“65AAA	Gate-pass for removal of excisable goods from a free trade zone on payment of duty.	100E	G.P. 1-A”;

(iii) After Central Excise Series No. 79B and the entries relating thereto, the following Central Excise Series No. and entries shall be inserted, namely:—

Central Excise Series No.	Description of Form	Rule No.	Short title
“79C	Monthly return of excisable goods removed from a free trade zone on payment of duty.	100F	R.T. 13”;

(b) in (II) Specimen Forms,—

(i) after Form A.R.1 (Application for removal of excisable goods on payment of duty) (Central Excise Series No. 57), the following Central Excise Series No. and Form shall be inserted, namely:—

FORM A.R. 1-A

“Central Excise Series No. 57A.

Original/Duplicate/Triplicate

Range _____

Division _____

Collectorate _____

Free Trade Zone _____

Application for removal of excisable goods from a free trade zone on payment of duty
(Rule 100D)

Name and address of owner/manufacturer _____

Name of the buyer and address _____

No. and date of entry in the register	No. and description of packages	Gross weight of packages	Marks and Nos.	Weight or quantity	Description of goods with tariff classification
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Invoice value	Assessable value for column 9		Excise Duty					
	per unit	Total	Equal to Basic Customs Duty		Equal to Auxiliary Duty		Equal to any other Customs Duty	
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount
7.	8(a)	8(b)	9(a)	9(b)	9(c)	9(d)	9(e)	9(f)
1.								
2.								
3.								
4.								

Assessable value for Column 11		Excise Duty equal to Additional (Customs) Duty									
		Basic Excise Duty		Special Excise Duty		Additional Excise Duty		Cess		Any other duty of Excise	
Per Unit	Total	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount
10(e)	10(b)	11(a)	11(b)	11(c)	11(d)	11(e)	11(f)	11(g)	11(h)	11(i)	11(j)
1.											
2.											
3.											
4.											

Total of Column 9 and 11				Serial No. of Gate-Pass issued				Remarks			
12.				13.				14.			
1.											
2.											
3.											
4.											

TOTAL AMOUNT OF DUTY (IN WORDS) RUPEES

(By pinpoint typewriter)

TOTAL _____
 Authorisation Permit No. and Date _____
 Place _____
 Date _____
 Clearance allowed _____
 Time _____
 G P I-A No. _____
 Date _____
 Place _____
 District _____

For payment through Account Current	Account Current No.	No. and entry	Amount
1.			
2.			

DECLARATION

I/We declare the above particulars to be true and correctly stated.
 I/We apply for leave to clear the above goods.

Signature of Assessing Officer _____ Signature of the owner/manufacturer _____
 Counter-signature of Assistant Collector _____
 Signature of Central Excise Officer _____

- (ii) after Form G.P.2 (Gate-Pass for removal of excisable goods from a factory or warehouse without payment of duty) (Central Excise Series No. 65AA), the following Central Excise Series No. and Form shall be inserted, namely:—
"Central Excise Series No. 65AAA

Original for Carrier _____
Duplicate for Central Excise _____
Triplicate Office copy _____
Serial No. _____
Range _____
Division _____
Collectorate _____
Free Trade Zone _____

FORM GP 1-A

Gate-pass for removal of excisable goods from a free trade zone on payment of duty

(Rule 100E)

Name and address of manufacturer _____

Description of excisable goods _____

Tariff Item and Sub-Item No. _____

Sl. No.	Variety No. of goods	Description of packages	Identification Marks and S. No. of goods	Average contents per package	Total quantity	Total duty paid
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Total						

A.R.1-A No. and date:

Account-Current No. and debit entry for duty in Account-current/Date.

Name and address of consignee.

Manner of transport:

If by motor vehicle, its Registration No.

If by rail, name of booking station.

If by rail, name of receiving station.

Certified that the particulars given above are correct.

Place:

Date and time of preparation of gate-pass

Checked the consignment and found in order.

Signature of the manufacturer

Date:

Signature of the Central Excise Officer at a free trade zone.,";

Time:

- (iii) after Form R.T. 12 (Monthly periodical return of excisable goods manufactured/received in bond and issued by assessees working under Chapter VII-A) (Central Excise Series No. 79-B), the following Central Excise Series No. and Form shall be inserted, namely:—

"Central Excise Series No. 79C.

Original/Duplicate/Triplicate
Range _____
Division _____
Collectorate _____
Free trade zone _____
Sr.No. _____
Month _____
Year _____

FORM RT. 13

Monthly return of excisable goods removed from a free trade zone on payment of duty

(Rule 100F)

Name and address of the manufacturer—

Sl. No.	Description of goods	Tariff classification	Quantity permitted to be removed on payment of duty	Permit No. and date	Removals		Particulars of Gate pass	Balance left unremoved	Remarks
					Quantity	Amount of duty			
1	2	3	4	5	6(a)	6(b)	7	8	9
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Month	Opening Balance	Cash Deposits during the month	Total	Amount debited during the month	Closing balance
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Particulars checked in order.

I/We hereby declare that the particulars above are correct to the best of my/our knowledge and belief.

Inspector, Central Excise.

Signature of the Manufacturer."

[F.No.202/21/82-CX-6]

Note:—The Central Excise Rules, 1944 published vide notification No. IV-D dated 28th February, 1944, Gazette of India, Extraordinary page 422, Subsequently amended by:—

- (i) Notification No. 8/81 dated 31-1-81 (G.S.R.No. 110)
- (ii) Notification No. 15/81 dated 21-2-81 (G.S.R. No. 207)
- (iii) Notification No. 106/81 dated 22-4-81 [G.S.R. No. 302(E)]
- (iv) Notification No. 110/81 dated 29-4-81 [G.S.R. No. 316(E)]
- (v) Notification No. 115/81 dated 11-5-81 [G.S.R. No. 325(E)]
- (vi) Notification No. 185/81 dated 14-11-81 (G.S.R. No. 1009)
- (vii) Notification No. 8/82 dated 30-1-82 (G.S.R. No. 99)

सं० 14/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

N. 14/83-CENTRAL EXCISES

सा० का० नि० 67 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि राजराज में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से पहले किसी भी समय नियम 8 के उक्त उपनियम (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं में अंतर्दिष्ट कोई बात ऐसे भाव को लागू नहीं होगी जो किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या विनिर्मित किया जाता है और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है।

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that nothing contained in the notifications issued under the said sub-rule (1) of rule 8 at any time whatsoever before the date of issue of this notification in the Official Gazette shall apply to the goods which are produced or manufactured in a free trade zone and brought to any other place in India.

[F. No. 202/21/82-Cx. 6]

सं० 15/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 68 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्दिष्ट छूट ऐसे माल को लागू नहीं होगी यदि वह भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है।

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 15/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all excisable goods produced or manufactured in a free trade zone from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) :

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to such goods if brought to any other place in India.

[F. No. 202/21/82-CX.6]

सं० 16/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 69 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला मुक्त व्यापार जोन में किसी माल के उत्पादन या विनिर्माण के अनुक्रम में उत्पन्न स्कैप या अपशिष्ट सामग्री को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि :—

- (क) ऐसा स्कैप या अपशिष्ट सामग्री भारत से बाहर किसी स्थान से उक्त क्षेत्र में लाए गए किसी माल से उत्पन्न हुई हो, और
- (ख) ऐसे स्कैप या अपशिष्ट सामग्री की तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संशय कर दिए जाने पर उक्त जोन से बाहर घरेलू उपयोग के लिए निकासी की जाती है।

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 16/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts scrap of waste material arising in the course of production or manufacture of any goods in the Kandla Free Trade Zone, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) :

1326 GI 82—3

Provided that :—

- (a) such scrap or waste material is out of any goods brought into the said zone from a place outside India, and
- (b) such scrap or waste material is cleared for home consumption outside the said zone on payment of duties of customs leviable thereon under any law for the time being in force.

[F. No. 202/21/82-CX. 6]

सं० 17/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 70 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 186/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 अगस्त, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात् :—

“2. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, सान्ताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात संसाधन जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल की, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संशय कर दिए जाने पर उक्त जोन से बाहर घरेलू उपयोग के लिए ऐसी मात्रा में तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, निकासी की जा सकेगी जो उक्त जोन के विकास आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।”

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 17/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 186/75-Central Excises, dated the 21st August, 1975, namely :—

In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“2. Notwithstanding anything contained in this notification, the goods produced or manufactured in the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone may be cleared for home consumption outside the said zone, in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Development Commissioner of the said zone, on payment of duty of excise leviable on such goods under section 3 of the said Act”.

[F. No. 202/21/82-CX. 6]

सं० 18/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 71 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना

सं० 152/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 का निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, चौथे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण — इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, सारणी में उल्लिखित उत्पादों की किसी मात्रा के विनिर्माण में प्रयुक्त, यथास्थिति, इस्पात की मिल्लियों या श्रद्धे परिहृषित इस्पात पर सदत्त शुल्क, किसी मुक्त व्यापार जोन से बाहर भारत में किसी स्थान में विनिर्मित, यथास्थिति, इस्पात की मिल्लियों या श्रद्धे परिहृषित इस्पात पर संदय शुल्क होगा।”

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No 18/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 71(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) No. 152/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely :—

In the said notification, after the fourth proviso, the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation—For the purposes of this proviso, the duty paid on steel ingots or semi-finished steel, as the case may be, used in the manufacture of any quantity of products mentioned in the Table, shall be the duty payable on steel ingots, or, as the case may be, semi-finished steel, manufactured in any place in India outside a free trade zone.”

[F. No. 202/21/82-CX 6]

सं० 19/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 72 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 201/79 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 जून, 1979 का निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना के अधीन छूट, किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित और उक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आगतों पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सदत्त उत्पाद-शुल्क की मात्रा तक उक्त माल पर उपलब्ध नहीं होगी।’

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 19/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 72(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue) No. 201/79-Central Excises dated the 4th June, 1979, namely :—

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that exemption under this notification shall not be available to the said goods to the extent of the duty of excise paid under section 3 of the said Act on the inputs produced or manufactured in a free trade zone and used in the manufacture of the said goods.”

[F No. 202/21/82-CX. 6]

सं० 20/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 73 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 272/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 अक्टूबर, 1979 का निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, काडला मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिए जाने पर उक्त जोन से बाहर घरेलू उपभोग के लिए ऐसी मात्रा में तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, निकासी की जा सकेगी जो उक्त जोन के प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।”

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 20/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 73(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with subsection (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 272/79-Central Excises, dated the 18th October, 1979, namely :—

In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“2. Notwithstanding anything contained in this notification the goods produced or manufactured in the Kandla Free Trade Zone may be cleared for home consumption outside the said zone in such quantity and subject to such limitations and conditions as may be specified by the Administrator of the said zone, on payment of duty of excise leviable on such goods under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).”

[F. No. 202/21/82-CX 6]

सं० 21/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 74 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 55/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, सारणी में उल्लिखित उत्पादों की किसी मात्रा के विनिर्माण में प्रयुक्त, यथास्थिति, इस्पात की सिलिलियों या भट्टे परिरूपित इस्पात पर संदत्त शुल्क, किसी मुक्त व्यापार जोन से बाहर भारत में किसी स्थान में विनिर्मित यथास्थिति, इस्पात की सिलिलियों या भट्टे परिरूपित इस्पात पर संदेय शुल्क होगा।”।

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 21/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 55/80-Central Excises, dated the 13th May, 1980, namely:—

In the said notification, after the third proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation—For the purposes of this proviso, the duty paid on steel ingots or semi-finished steel, as the case may be, used in the manufacture of any quantity of products mentioned in the Table, shall be the duty payable on steel ingots or, as the case may be, semi-finished steel, manufactured in any place in India outside a free trade zone.”.

[F. No. 202/21/82-CX. 6]

सं० 22/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 75 (अ):—केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 22/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 75(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts all excisable goods produced or manufactured in a free trade zone from whole of the additional duties of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

[F. No. 202/21/82-CX. 6]

सं० 23/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 76(अ):—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 50 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

No. 23/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 50 of the Finance Act, 1932 (14 of 1982), the Central Government hereby exempts all excisable goods produced or manufactured in a free trade zone from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 50 of the said Act.

[F. No. 202/21/82-CX. 6]

सं० 24/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 77(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को उक्त नियमों के नियम 174 के प्रवर्तन से छूट देती है।

[फा० सं० 202/21/82-के० उ० शु० 6]

आर० देव, अवर सचिव

No. 24/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the operation of rule 174 of the said rules all excisable goods produced or manufactured in a free trade zone.

[F. No. 202/21/82-CX. 6]

R. DEB, Under Secy.

